



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधौरा।

पत्रांक:- 1870
प्रेषक:- कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मधौरा।

मधौरा/दिनांक:- 05.04.23

सेवा में,
शाखा प्रबंधक/ड्राफ्ट्समैन,
Bank of Baroda लि.
Old Bungalows Rd Mangrpar

विषय:- संवेदक द्वारा दिये गये F.D. के सत्यापन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संवेदक KUMARI SHILPI Singh के द्वारा अग्रधन के रूप में इस कार्यालय में जमा जमानत की निम्नलिखित F.D. अद्योहस्ताक्षरी (E.E. R.W.D. (W) Div. Marhaura) के पदनाम से प्रतिज्ञित (Pleadiging) कर निर्गत किया गया है अथवा नहीं? यदि आपके शाखा से निम्नवत् F.D. निर्गत है तो इसकी सत्यता की जाँच कर प्रतिवेदन इस कार्यालय के E-Mail ID-eerwd.marhaura@yahoo.com, पत्राचार अथवा पत्रवाहक के माध्यम से इस कार्यालय के भेजने की कृपा की जाय, ताकि अग्रेतर कार्रवाई किया जा सकें।


अनु-1) FD Account No- 79990300006797 — Rs 6,54,000 =00

we confirmed. ————— 79990300005940 — Rs 5,24,000 =00

The mentioned FD-79990300006797 - 6,54,000/-
79990300005940 - 524000/-

is issued from Bank of Baroda VRAJJI Branch
and under Pledge for EERWD works
Division Marhaura.

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, मधौरा।
Date
3/10/2023

Scanned with OKEN Scanner

Underfledged for EERWD Works Division Marhara.



/ Deposit Confirmation Advice

KUMARI SHILPI SINGH

WO AJAY KUMAR
KOCHWARA PO ARVIND NAGAR
841221
INDIA

सावधि खाता क्र./ FD Ac No	79990300006797
सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR2809230940
कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	HF0064920
व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	79990400000637
शाखा का नाम/Branch Name	HAJIPUR

योजना / Scheme	BARODA TIRANGA PLUS DEPOSIT	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	Y		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	2809		
पैन नंबर / PAN No.	DLFPS3624K	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value
654000	28-09-2023	7.25	0 Months 399 Days	31-10-2024	707313

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है. 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज: i) यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा. ii) कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा. 3. फॉर्म 15 जी और 15एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है. 4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/ 15 एच/ 15 एए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी. 5. फॉर्म एच केवल दरिद्र नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा. 6. परिपक्वता आहरण क्लॉज: i) रु. 1 करोड़ से कम की जमा राशियों को समयपूर्व बंद करने पर 1% दंड का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि के जारी होने की तिथि पर लागू कार्ड दर से 1% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा. ii) रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशियों को समयपूर्व बंद करने पर 1.5% दंड का प्रावधान है अर्थात् ऐसी जमा राशि पर बैंक में रखा जाने वाली अवधि के लिए लागू कार्ड दर से 1.5% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा. रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि के समय पूर्व आहरण के लिए जमा राशि के आहरण से कम से कम 31 दिन पहले बैंक को सूचना दी जानी चाहिए. 7. गैर प्रतिदेय जमा के अंतर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है.	1. Rate of Interest is in percentage per annum. 2. Automatic Renewal Clause: i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more) 6. Premature Withdrawal Clause: i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank. 7. In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed.
---	--

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature





जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

KUMARI SHILPI SINGH W/O AJAY KUMAR, KOCHWARA, PO-ARVIND NAGAR SITALPUR, SARAN, BIHAR 841221 INDIA		सावधि खाता क्र./ FD A/c No	79990300005940
		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR1801232305
		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	HF0V05028
		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	79990500000006
		शाखा का नाम/Branch Name	HAJIPUR
योजना / Scheme	BARODA TIRANGA PLUS DEPOSIT	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	Y		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	20230118		
पैन नंबर / PAN No.	DLFPS3624K	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
524000	18-01-2023	7.05	0 Months 399 Days	21-02-2024	565610

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है.	1. Rate of Interest is in percentage per annum.
2. स्वतः नवीकरण क्लॉज :	2. Automatic Renewal Clause :
i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा.	i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा.	ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
3. फॉर्म 15 जी और 15 एच शिर्फ निवासी खातों के लिए है.	3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.
4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 एफ (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा छोट पर कर कटौती की जाएगी.	4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year; prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
5. फॉर्म 15 एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे.	5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
6. परिपक्वता आहरण क्लॉज :	6. Premature Withdrawal Clause :
i). 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसकी आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लगेंगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके काई रेट से 1% कम.	i). Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank.
ii). 1 करोड़ से अधिक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसकी आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लगेंगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके काई रेट से 1.5% कम. 1 करोड़ से अधिक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसकी आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है.	ii). Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

